



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 32]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 24, 2001/माघ 4, 1922

No. 32]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 24, 2001/MAGHA 4, 1922

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2001

सं. 6/2001-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 34(अ).—सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के उपशीर्ष सं. 28210.10 के अंतर्गत आने वाले गामा फैरिक ऑक्साइड के विषय में महानिदेशक (रक्षोपाय), भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 20 दिसंबर, 2000 में प्रकाशित अपने निष्कर्षों के अनुसार इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि भारत में गामा फैरिक ऑक्साइड वर्धित आयात से गामा फैरिक ऑक्साइड के उत्पादकों को गंभीर हानि होने का भय है और भारत में गामा फैरिक ऑक्साइड के आयातों पर दो वर्ष और छः मास की अवधि के लिए रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करना लोकहित में होगा;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और निर्धारण) नियम, 1997 के नियम 12 और नियम 14 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 8ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक (रक्षोपाय) के उक्त निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात्, उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के उपशीर्ष सं. 2821.10 के अंतर्गत आने वाले गामा फैरिक ऑक्साइड पर जब उसका भारत में आयात किया जाए, निम्नलिखित दर पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करती है :—

- (1) 23% मूल्यानुसार जब उसका 23 जनवरी, 2002 तक जिसमें वह तारीख भी सम्मिलित है आयात किया जाए;
- (2) 20% मूल्यानुसार जब उसका 24 जनवरी, 2002 तारीख को या उसके पश्चात् किन्तु 23 जनवरी, 2003 के अपश्चात् आयात किया जाए और
- (3) 15% मूल्यानुसार जब उसका 24 जनवरी, 2003 को या उसके पश्चात् किन्तु 23 जुलाई, 2003 के अपश्चात् आयात किया जाए।

2. इस अधिसूचना की कोई बात —

- (क) अग्रिम अनुज्ञप्ति के अधीन, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि गामा फेरिक ऑक्साइड का, निर्यात बाध्यता के निर्वहन में उपयोग के सिवाय किसी अन्य रीति में व्ययन या उपयोग नहीं किये जाएगा; या इस प्रकार उपयोग की गई वस्तु की पुनः प्राप्ति के लिए नहीं किया जाएगा और इस प्रकार पुनः पूर्ण की गई वस्तु का किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय या अंतरण नहीं किया जाएगा ;
- (ख) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8ख की उपधारा (6) के खंड (क) के अधीन विकासशील देशों के रूप में अधिसूचित देशों से, किए गए गामा फेरिक ऑक्साइड के आयातों को लागू नहीं होगी।

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना में "अग्रिम अनुज्ञप्ति" से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

- (i) समय-समय पर यथासंशोधित भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की लोक सूचना सं. 1 आईटीसी(पीएन)/92-97 तारीख 31 मार्च, 1992 के अधीन प्रकाशित निर्यात और आयात नीति 1 अप्रैल, 1992—31 मार्च, 1997 के पैरा 50 के निबंधनों के अनुसार जारी की गई और अनंतरणीय और वास्तविक उपयोगकर्ता शर्त के पृष्ठांकन सहित मात्रा आधारित अग्रिम अनुज्ञप्ति; या
- (ii) समय-समय पर यथासंशोधित भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. 1/1997-2002 तारीख 31 मार्च, 1997 के अधीन प्रकाशित निर्यात और आयात नीति 1 अप्रैल, 1997—31 मार्च, 2002 के पैरा 7.4 के निबंधनों के अनुसार जारी की गई मात्रा आधारित अग्रिम अनुज्ञप्ति; या
- (iii) समय-समय पर यथासंशोधित भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. 1/1997-2002 तारीख 31 मार्च, 1997 के अधीन प्रकाशित निर्यात और आयात नीति 1 अप्रैल, 1997—31 मार्च, 2002 के पैरा 7.4 के निबंधनों के अनुसार जारी की गई वार्षिक अग्रिम अनुज्ञप्ति।

[फा. सं. 345/26/2000-टीआरयू]

जी.डी. लोहानी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2001

No. 6/2001-CUSTOMS

G.S.R. 34(E).— WHEREAS in the matter of Gamma Ferric Oxide, falling under sub-heading No. 2821.10 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Director General (Safeguards), *vide* his final findings, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 20th December, 2000 has come to the conclusion that increased imports of Gamma Ferric Oxide into India have caused and threatened to cause further injury to the domestic producers of Gamma Ferric Oxide and it will be in public interest to impose safeguard duty for a period of two and a half years, on imports of Gamma Ferric Oxide into India;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8B of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), read with rules 12 and 14 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997, the Central Government after considering the said findings of the Director General (Safeguards), hereby imposes on Gamma Ferric Oxide, falling under sub-heading No. 2821.10 of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, when imported into India, a safeguard duty at the rate of —

- (1) 23% *ad valorem*, if imported upto and inclusive of the 23rd day of January, 2002;
- (2) 20% *ad valorem*, if imported on or after the 24th day of January, 2002 but not later than the 23rd day of January, 2003; and

(3) 15% *ad valorem*, if imported on or after the 24th day of January, 2003 but not later than 23rd day of July, 2003.

2. Nothing contained in this notification shall apply to imports of Gamma Ferric Oxide made –
- (a) under an Advance Licence, subject to the condition that the said Gamma Ferric Oxide shall not be disposed of or utilized in any manner except for utilization in discharge of export obligation, or for replenishment of article so utilized and the article so replenished shall not be sold or transferred to any other person;
 - (b) from countries notified as developing countries under clause (a) of sub-section (6) of section 8B of the said Customs Tariff Act.

Explanation.- In this notification, "Advance Licence" means,-

- (i) Quantity Based Advance Licence issued in terms of paragraph 50 of the Export and Import Policy 1st April, 1992- 31st March 1997 published vide public notice of the Government of India in the Ministry of Commerce No. 1-ITC(PN)/92-97, dated the 31st March, 1992, as amended from time to time, and endorsed with non-transferable and actual user condition; or
- (ii) Quantity Based Advance Licence issued in terms of paragraph 7.4 of the Export and Import policy 1st April, 1997- 31st March 2002 published vide notification of the Government of India in the Ministry of Commerce No. 1/ 1997-2002, dated the 31st March, 1997, as amended from time to time; or
- (iii) Annual Advance Licence issued in terms of paragraph 7.4A of the Export and Import Policy 1st April, 1997- 31st March 2002 published vide notification of the Government of India in the Ministry of Commerce No. 1/ 1997-2002, dated the 31st March, 1997, as amended from time to time.

[F. No 345/26/2000-TRU]

G D LOHANI, Under Secy.

